

FEDDERS HOLDING LIMITE

(Formerly known as IM+ Capitals Limited) CIN: L74140UP1991PLC201030

August 16, 2024

To,

The Secretary **BSE Limited** The Stock Exchange, Mumbai Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai- 400001

<u> ISIN: INE417D01012 - FEDDERS HOLDING LIMITED</u>

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended on June 30, 2024 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on August 15,2024.

Authorised

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Fedders Holding Limited

(Formerly known as IM+ Capitals Limited)

SAKSHI GOEL

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFF

FINANCIAL EXPRESS

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE]

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 14-Jul-23 Calling upon the Borrower A Sai Scrap (Borrower), Smt.Shanti Devi (Co-Borrower), Ram Gopal (Co-Borrower), Smt.Jyoti (Co-Borrower), Suraj Bhan (Co-Borrower) (Loan Account No. L9001060721220358) to repay the amount mentioned in the notice being for Rs. 1821518/- Rs. Eighteen Lac Twenty-One Thousand Five Hundred Eighteen Only within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to

the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 12 Day of August of the Year 2024. The borrower/ co-borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for an amount of for for Rs. 1821518/- Rs. Eighteen Lac Twenty-One Thousand Five Hundred Eighteen Only as on 11-Jul-23 and interest and expenses thereon until full payment.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Building/ Structure and fixtures Property Situated At Freehold - Municipal Limit Metro And Urban 175/20 00 Gali No 8 Om Nagar Gurgaon. Harvana Admeasuring 120 Sayds owned by 5mt.Shanti Devi **Authorised Officer** Date: 12-Aug-24 Au Small Finance Bank Limited Place: HARYANA

AUTHUM AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED Regi.Off.: 707, Raheja Centre, Free Press Journal Road, Nariman

Point, Mumbai-21. Ph.: (022) 6747 2117 Fax: (022) 6747 2118 E-mail: info@authum.com

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas the undersigned being the Authorised officer of the Authum Investment & Infrastructure Limited ("AIIL") (Resulting Company pursuant the demerger of lending business from Reliance Commercial Finance Limited ("RCFL") to AllL vide NCLT order dated 10.05.2024), under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notices dated 19/02/2024 calling upon the borrower BHAICHARA AND COMPANY & Co-borrowers MOHAMMAD SAEED & HANIF MUNAN to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 25,96,918.00/-(Rupess Twenty Five Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Eighteen Only) under Loan Account No. RLELAGR000432448 with further interest and costs within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 12 day of August of the year 2024. The Borrower/ Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned.

not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Authum Investment & Infrastructure Limited for an amount of Rs. 25,96,918.00/- (Rupess Twenty Five Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Eighteen Only) and interest thereon. The Borrower/ Co-Borrower's attention is invited to provisions of Section 13(8) of the said Act, in respect of time available, to redeem the secured assests. Description of immovable Property

All that piece and parcel of land admeasuring Plot No. 28 Mauza Mathura Bangal inside Sukhdev Nagar near Head Pump, Sonkh Road, Mathura-281123 boundaries; East-Plot No. 29; West-Plot No. 27; North-Plot No. 18 & South-Rasta 20. (Authorized Officer)

Date: 12.08.2024 Place: Mathura

Authum Investment & Infrastructure Limited

POSSESSION NOTICE Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known

as Janalakshmi Financial Services Limited), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation. Borrower/ 13(2) Notice Date/ Date/ Time

or. No.	Loan No.	Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	Outstanding Due (in Rs.) as on	& Type of Possession						
1	45239440000183 & 45239670000131	1) M/s. Sanjay, Prop. Sanjay Milk Dairy, Represented by its Proprietor Mr. Sanjay, 2) Mr. Sanjay (Borrower), 3) Mrs. Koshilya Devi (Guarantor)	07.05.2024 Rs.4,11,010/- (Rupees Four Lakh Eleven Thousand Ten Only) as on 05.05.2024	Date: 12.08.2024 Time: 03:10 P.M. Symbolic Possession						
		Description of Secured Asset: All that piece and parcel of the Immovable								

Property bearing Khewat No.1273, Khatoni No.1475, Mustil No.105, Killa 25, Mustil No.106, Killa 21/1, Mustil No.123 Anand Nagar, Rewari, Owned by Mr. Sanjay Bounded as: East: House Ram Kishore, West: House Ram Naresh, North: Road, South: House Mahaveer. Whereas, the Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein

above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrowers mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited has taken possession of the properties/ secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured Assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited. Place: Haryana Sd/- Authorised Officer

For. Jana Small Finance Bank Limited Date: 15.08.2024

JANA SMALL FINANCE BANK

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.

NEW LOOK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS ANSAL PHALAK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED) (CIN: U70100DL2010PTC208167) First Floor, The Great Eastern Centre, 70, Nehru Place, Behind IFCI Tower, New Delhi-110019

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024 [Regulation 52(8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

L				7,00	Rs. In lacs
m	and the same accounts	Quarter ended		Year ended	Year ended
	Particulars	(30/06/2024) (Un Audited)	(30/06/2023) (Un Audited)	(31/03/2024) Audited	(31-03-2023 Audited
1	Total Income from Operations	818.17	775.78	3,253.28	10,428.10
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(583.39)	(132.29)	1.68	(203.80)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(565.22)	(132:29)	1.68	(203.80)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(627.55)	(183.11)	(46.89)	(704.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		(183.11)	(47.68)	(704.97)
6	Paid up Equity Share Capital	11.37	11.37	11.37	11:37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	13,117.29	13,609.41	13,744.84	13,792.52
8	Securities Premium Account	18,198.07	18,198.07	18,198.07	18,198.07
9	Net worth (excluding DRR of Rs. 1502.45)	11,614.85	12,106.96	12,242.39	12,301.45
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	Nil	Ni	Nil	NII
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	NII
12	Debt Equity Ratio	0.27	0.27	0.26	0.26
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	(551.93)	(161.05)	(41.94)	(620.05)
121	2. Diluted:	(551.93)	(161.05)	(41.94)	(620.05)
14	Capital Redemption Reserve	Nil	NI NI	Nil	Nil
15	Debenture Redemption Reserve	1,502.45	1,502.45	1,502.45	1,502.45
16	Debt Service Coverage Ratio	(354.88)	(75,79)	(1.12)	0.32
17	Interest Service Coverage Ratio	(323.11)	(51.18)	1.19	0.93

Note: (a) The above is an extract of the detailed format of half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI Circular (CIR/IMD/DF1/69/2016) dated August 10, 2016. The full format of the financial results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the Company's website www.newlookdevelopers.com

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEB (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange, BSE Limited and can be accessed on the URL https://www.newlookdevelopers.com/investors/

(c) The Above results of the Company have been Audited by the Statutory Auditors and they have issued an unqualified audit opinion on the same. (d) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted (if any) in the Statement of Profit and

Loss in accordance with Ind AS Rules, whichever is applicable. e) *-The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation

Date: 13.08.2024

Place: New Delhi

52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For and on behalf of the Board of Directors

> New Look Builders and Developers Private Limited Piyush Kumar Gupta Director

DIN:- 07772976

Place: Pune

Date: 14th August, 2024

FEDDERS

FEDDERS HOLDING LIMITED (Formerly known as IM+ Capitals Limited) (CIN: L74140UP1991PLC201030)

HOLDING LTD Registered Office: C-15, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001. Tel. No.: 9810266747; E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com Website: https://imcapitals.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

7			Standalo	ne	Consolidated		
S.No.	PARTICULARS	Quarter	Ended	Year Ended	Quarter l	Ended	Year Ended
o.no.	FARINGLARS	30.06.2024 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from operations	128.83	133.63	756.85	14,707.92	14,971.91	57,165.44
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(23.07)	84.39	499.64	2,014.84	1,220.31	9,369.37
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(23.07)	84.39	499.64	2,014.84	1,220.31	9,369.37
4.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the year (Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	(23.07)	84.39	499.64	1,991.00	1,234.60	9,393.37
5.	Equity paidup share capital	1,107.80	916.20	916.20	1,107.80	916.20	916.20
6.	Earning Per Share (not annualised):						
	(a) Basic (e)	(0.21)	0.92	5.45	18.19	13.35	102.26
- 8	(b) Diluted(₹)	(0.21)	0.92	5.45	18.19	13.35	102.26

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2024. The Financial results for the quarter ended 30th June, 2024 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.imcapitals.com

By Order of the Board For FEDDERS HOLDING LIMITED Sd/-

Vishal Singhal Place: Ghaziabad (U.P) Director Date: 14.08.2024 DIN: 03518795

> SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD. CIN:L74210DL1987PLC029979

REGD.OFFICE: 1400, HEMKUNT TOWER, 98, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019 Tel.: +91-11-42504842

E-Mail: sbecsystems@rediffmail.com, Website: www.sbecsystems.in

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Rs. in Lakhs)

		STANDALONE CONSOLIDATED						
Sr. Vo.	Particulars	Quarter	Ended	Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
	11 (province and described to	30.06.2024 Un-Audited	30.06.2023 Un-Audited	31.03.2024 Audited	30.06.2024 Un-Audited	30.06.2023 Un-Audited	31.03.2024 Audited	
2	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or	66.53	68.29	319.06	66.53	68.29	319.06	
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items and share of	27.46	23.65	138.71	27.46	23.65	138.71	
,	Profit/Loss of Associates) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or	27.46	23.65	138.71	27.46	23.65	138.71	
i	Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other	19.82	19.70	132.91	19.82	19.70	132.91	
	Comprehensive Income(after tax)] Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
	previous year Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	*	•	(1041.74)	*	đ	(2464.83)	
,	Basic	0.20	0.20	1.33	0.20	0.20	1.33	
,	Diluted	0.20	0.20	1.33	0.20	0.20	1.33	

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Financial results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.sbecsystems.in.

The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 14,2024.

The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended) By Order of Board For SBEC Systems (India) Limited

Place: New Delhi Date: 14.08.2024

Vijay Kumar Modi (Chairman & Director) DIN: 00004606



DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMICALS CORPORATION LIMITED CIN: L24121MH1979PLC021360

Registered & Corporate Office: Sai Hira, Survey No. 93, Mundhwa, Pune- 411 036 Tel No.: +91 20 6645 8000, website: www.dfpcl.com, email id: investorgrievance@dfpcl.com

INFORMATION REGARDING THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS, **BOOK CLOSURE AND DIVIDEND**

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10th September, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated 25th September, 2023 read with circulars dated 28th December, 2022, 5th May, 2022, 13th January 2021, 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated 7th October, 2023 read with circulars dated 5th January, 2023, 13th May, 2022, 15th January, 2021 and 12th May, 2020 (collectively referred to as 'SEBI circulars'), to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circulars, Notice of the 44th AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 will be sent only through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be dispatched to those shareholders who request for the same.

The Notice of 44th AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 will also be made available on the Company's website at www.dfpcl.com, website of the stock exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Registrar and Share Transfer Agent of the Company. KFin Technologies Limited (hereinafter referred to as 'KFin' or 'RTA') on at https://evoting.kfintech.com. In order to receive the Notice and Annual Report in electronic mode, Members are requested to register / update their email addresses with the Depositories through the concerned Depository Participants in respect of shares held in electronic mode and with KFin at Selenium, Tower-B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Seriligampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032 in respect of shares held in physical mode by submitting Form ISR-1 which is available on website of the Company at https://www.dfpcl.com/forms.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 44th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting for shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email address is provided in the Notice of 44th AGM. Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only. Members who attend and participate in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management &

Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 4th September, 2024 upto Tuesday, 10th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 44th AGM of the Company and payment of dividend for the financial year ended 31st March, 2024, if declared by the members at their 44th AGM. SEBI has made it mandatory to use the bank account details furnished by the Depositories and the bank account details maintained by the RTA for payment of dividend to the Members electronically. The shareholders holding shares in physical form shall be paid dividend only through electronic mode subject to their folios being KYC compliant as per the SEBI requirements. In case of a shareholder who is holding shares in physical form and has not furnished the requisite KYC documents, the dividend in respect of such folio would be withheld till the time the shareholder provides the same. For Members holding shares in physical mode, SEBI has mandated furnishing of PAN contact details, bank account details and nomination. Members holding shares in physical mode are requested to update their details with Company/RTA by submitting Form ISR-1. Members holding shares in dematerialised mode are requested to update their complete bank details with their Depository Participant.

Members may note that pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income has become taxable in the hands of the Members with effect from 1" April, 2020 and therefore, the Company shall be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates from dividend payable to Members For the prescribed rates for various categories, Members are requested to refer to the Finance Act, 2024. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit documents in accordance with the provisions of the Act on or before 16th August, 2024. Members are requested to update their PAN with the Company/KFin (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode). For Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

> Gaurav Umakant Munoli Company Secretary

ACS 24931



KINETIC ENGINEERING LIMITED

Regd. Office: D-1 Block, Plot No. 18/2, M.I.D.C, Chinchwad, Pune - 411 019 Ph.: 91-20-66142078, Fax: +91-20-66142088/89 | Email: kelinvestors@kineticindia.com NIMETIC Website: www.kineticindia.com | CIN : L35912MH1970PLC014819

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE 2024

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2024	Quarter Ended June 30, 2023
140.		(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Revenue from operations	3956	3194
2	Net Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	54	134
3	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54	134
4	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54	134
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	54	134
6	Equity Share Capital	2216	1988
7	Earnings Per Share (Face value of Rs 10 each)	()	
	Basic:	0.23	0.68
	Diluted:	0.23	0.68
KEY	STANDALONE FINANCIAL INFORMATION:		(Rs in Lakhs)

Quarter Ended | Quarter Ended Sr. No. **Particulars** June 30, 2024 June 30, 2023 (Unaudited) (Unaudited) Total Income from Operations 3956 3194 Profit / (Loss) before Tax 47 139 47 139 3 Profit/(Loss) after Tax Total Comprehensive Income (after tax) 47

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Results for quarter ended on June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results for the quarter ended on June 30, 2024 are available on the stock exchange website at www.bseindia.com and also on Company's website at www.kineticindia.com. (2) The above financial results were reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 14, 2024. The statutory auditors of company have expressed an unmodified opinion on the results. (3) Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current period's presentation.

For and on behalf of the Board of Directors For Kinetic Engineering Limited

Date: 14.08.2024 Place: Pune

A. A. Firodia (Managing Director) DIN: 00332204

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED Registered office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh-173030

CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: www.prismmedico.in Email Id: investorgrievancewmcl@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (PROVISIONAL) FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2024 in Lakhs

			Quarter Ended				
S. No.	PARTICULARS	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
NU.		Reviewed	Reviewed	Reviewed			
		30/06/2024	31/03/2024	30/06/2023	31/03/2024		
1.	Total income from operations (Net)	6.48	24.02	1.63	304.74		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before	-8.94	-7.42	-8.90	-2.79		
	Tax, Exceptional and/or Extraordinary items						
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	-8.94	-7.42	-8.90	-2.79		
	(after Exceptional and/or Extraordinary items						
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	-9.00	-6.76	-8.90	-2.13		
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
5.	Total Comprehensive Income for the period	-9.00	-6.64	-8.90	-2.01		
	[Comprising Profit / (Loss) for the period						
	(after tax) and Other Comprehensive						
	Income (after tax)]						
	Equity Share Capital	606.34	606.34	606.34	606.34		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	898.82	907.81	900.91	907.81		
	as shown in the Audited Balance Sheet of						
	the previous year						
8.	Earning per share (before extraordinary items)	-0.0015	-0.0011	-0.0015	-0.0004		
	(of Rs. 10/- each) Basic & Diluted						
	Earning per share (after extraordinary items)	-0.0015	-0.0011	-0.0015	-0.0004		
	(of Rs. 10/- each) Basic & Diluted						

Notes:- (1) The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 14.08.2024 after being reviewed by the Audit Committee. (2) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. (3) The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments" and therefore segment reporting is not applicable to the company.

For and on behalf of Board

Place:Kala Amb Dated :14.08.2024

Davender Singh **Director(DIN: 09447213)**

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

Regd. Office: 31, Ground Floor, Siri Fort Road, Mashjid Moth, New Delhi, South Ext-II, South Delhi-110049, CIN: L65922DL1985PLC020853, e-MAIL: sns.prop.ltd@gmail.com Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2024

(Rs. In Lakhs) Quarter Quarter Quarter

Particulars ended ended ended Year ended 31.03.2024 30.06.2023 30.06.2024 31.03.2024 Unaudited Audited Audited Audited Total income from operations (net) 0.26 13.09 0.00 13.10 Net Profit / (Loss) for the period -1.928.80 7.87 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) -1.02Net Profit / (Loss) for the period before tax -1.928.80 -1.027.87 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax -1.92-1.025.82 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 6.75 Equity Share Capital 99.42 99.42 99.42 99.42 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the -80.33 Balance Sheet of previous year) Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (in Rs./-) Basic & Diluted -0.19 0.68 -0.100.59

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 is available on Company's website: www.snsind.com and also on the MSEI website: www.msei.com

For SNS Properties And Leasing Limited

Place: New Delhi Dated: 14.08.2024

Rishab Talwar Director DIN: 10316259

RIBA TEXTILES LIMITED CIN: L18101DL1989PLC034528

Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office, New Delhi-110019. E.Mail: company.affairs@ribatextiles.com. Website: www.ribatextiles.com, Tel. No.: 011-26236986

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2024 Amount in Lacs (Rs.)

SL No.	Particulars	Quarter ending as on 30/06/2024 Un-audited	Proceeding 3 months ended 31/03/2024 Audited	Quarter ended in the previous year 30/06/2023 Un-audited	CYG/342007E
1	Total income from operations	6087.45	7402.62	5166.56	24720.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) activities after tax	159.23	323.17	149.13	1060.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	159.23	323.17	149.13	1060.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	113.39	233.72	106.33	791.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	113,39	233.72	106.33	791,77
6	Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29	965.29
7	"Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)				7974.38
8 Dillut	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	1,17	2.42 2.42	1.10 1.10	8.20 8.20

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange

websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com... The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by Board of Directors of the Company at its meeting held on 14/08/2024 and Statutory Auditors have issued Limited Review Report on the same. By order of the Board

> (Asha Garg) Chairperson & Whole time Director

For RIBA TEXTILES LIMITED

DIN:06987609

Place : Panipat

Date: 14.08.2024

New Delhi

financialexp.epapr.in

सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

रजि. कार्यालय : अपर दोआब श्रार मिल्स, शामली 247776 (यू.पी.) सीआईएन : L51909UP1933PLC146675 वेबसाइट : www.sirshadilal.com ई--मेल : ajay.jain@ssel.trivenigroup.com

फोन: 01398-250090

एतद द्वारा स्वित किया जाता है कि सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी") के

90वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-बोटिंग और बक क्लोजर की सचना

सदस्यों की 90वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 को दोपहर: 1:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर विश्वियो क्रॉफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमाँ ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए मेंजी जा रही सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा किया जा सके। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2023 साथ में पठित परिपत्र

दिनांक 5 मई, 2020 और समय समय पर जारी अन्य लागू परिपन्नों (इसके बाद सामुहिक रूप से "एमसीए परिपजों" के नाम से निर्दिष्ट) द्वारा एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों और सेबी (सचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। उक्त एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7 जक्टबर, 2023 के अनुसरण में, वार्षिक रिपॉट (2023-24) के साथ कम्पनी के एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है । सदस्य कृपवा ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस

ओर वार्षिक रिपॉट (2023-24) कम्पनी की वेबसाइट www.sirshadial.com, स्टॉक एक्सवेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, केफिन टेक्नालाजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') की वेबसाइट

www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे । ई-मतदान के माध्यम से रिमोट ई-मतदान / एजीएम में मतदान का तरीका

(क) सदस्यों के पास ई-मतदान (दरस्थ ई-मतदान सहित) के माध्यम से एजीएम में निर्धारित किए गए व्यवसायों पर अपना मतदान देने को जवसर होगा। डिमैटिरिलाइण्ड / भौतिक रूप सें शेयर घारण करने वाले सदस्यों को ई-मतदान (दरस्थ ई-मतदान सहित) को विधि, एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

(ख) ई—मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध काराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली द्वारा मतदान देने के लिए पात्र होगें जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और ऐसा करने से वे वर्जित नहीं है।

(ग) ई—मतदान (दूरस्थ ई—मतदान सहित) के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉग—इन प्राथमिकताएं (क्रेडेशियल्स), सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी लॉग-इन प्रमाणिकताएं उत्पन्न कर सकते हैं।

ई—मेल पते और बैंक अधिदेशों के पंजीकरण / अद्यतन का तरीकाः

जिन सदस्यों ने कंपनी या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते और बैंक मैंडेट पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें: भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:

सदस्यों से अपेक्षित ISR--1 फॉर्म जमा करने का अनुरोध किया जाता है जो इस लिंक पर उपलब्ध है: https://einwardsbi.alankit.com/Docs/Form/SR-1.pdf स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेजों के साथ मेसर्स अलकित असाइनमेंट लिमिटेड, अलकित हाउस, 4ई /2 इंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, मारत।

दिगटेरियलाइण्ड रूप में शेयरों के लिए: इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई-मेल पतों. पैन व बैंक खाता विवरणों को उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत/नवीकृत करवाएं जहाँ उनके

संबंधित डिमैट खाते है। ई-मेल पते की पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में. सदस्य कंपनी के रिजस्टार और शेयर टांसफर एजेंट अलंकिट असाइनमेंट लिमिटेड, से ई-मेलः maheshcp@alankit.com पर संपर्क कर सकते हैं।

बुक क्लोजर : एतद्वारा सूचना दी जाती है कि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 और अधिनियम की घारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 7 सितंबर 2024 से

शुक्रवार, 13 सितंबर 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे. कृते सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

तिथि : 14 अगस्त, 2024 स्थान : शामली, यु,पी.

अजय कुमार जैन कम्पनी सचिव एव अनुपालन अधिकारी

44वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी, बही बंदी तथा अंतिम लाभांश की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि

सकता है।

- 1) जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड ("कम्पनी") की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 को मध्या. 12 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण व्यवसाय तथा विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेत् कम्पनी अधिनियम्, 2013 के लाग् प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सर्कुलर्स दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर 2022, 25 सितम्बर, 2023 तथा अन्स संबद्ध सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा सर्कूलर दिनांकित 12 मई 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, तथा 7 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से "सेबी सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में किसी एक स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की
- एमसीए सर्कूलर्स तथा सेबी सर्कूलर्स के निबन्धनों में, 44वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2023–24 हेतू वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतू लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 14 अगस्त, 2024 को केवल ई—मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई—मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कूलर्स तथा सेबी सर्कूलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई।
- विच्छेदन तिथि (कट ऑफ–डेट) अर्थात ३ सितम्बर, २०२४ को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग स्विधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को
- एजीएम सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है
- रिमोट ई—वोटिंग 07 सितम्बर, 2024 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी ; रिमोट ई—वोटिंग 09 सितम्बर, 2024 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी
- लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं होगी। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (v) रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेत् विच्छेदन तिथि (कट ऑफ—डेट) 03 सितम्बर, 2024 है।
- (vi) केवल वह व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार होगा, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट ऑफ—डेट) 03 सितम्बर, 2024 को मौजूद होगा।
- (vii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार नहीं होगा। (viii) सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि (कट ऑफ—डेट) 03 सितम्बर, 2024 को शेयरधारक है ई—मेल swapann@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर
- (x) ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में. सदस्यगप https://instavote.linktime.co.in का हेल्पसेक्शन देखें अथवा श्री स्वपन कुमार नसकार, एसोसिएट वाइस-प्रेसिडेंट एवं हेड (नॉर्थ इंडिया), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइटस प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच 2 सी 1, ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्किट जनकप्री, नई दिल्ली-110058 से सम्पर्क नंबर (011) 41410592/93/94 (ई-मेल swapann@linkintime.co.in) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें।
- भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 44वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ४४वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अब अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु सदस्यगण अपना ई-मेल पता व विवरण सामजिक करवाने के लिए कम्पनी के रिजस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेटं, लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को फार्म ISR-I व अन्य दस्तावेज / उसमे निर्दिष्द विवरण (कम्पनी वेवसाइट https://www.indalstainless.com/investor-assistance के पास जमा करवा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।
- (xii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalstainless.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।
- (xiii) श्री कमल गुप्ता, अधिवक्ता, को ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेत् संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर ट्रांयफर बुक्स 44वीं एजीएम के उदेश्य सें बुधवार 04 सितम्बर 2024 को बंद रहेंगे।
- वित्तिय वर्ष 2023–2024 के लिए (यदि शेयरधारको द्वारा घोषित किया गया) अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकार्ड तिथि शुक्रवार, 30 अगस्त 2024 तय की गई है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalstainless.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

स्थान : नई दिल्ली

वास्ते **जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड** (नवनीत रघुवंशी)

तिथि : 14 अगस्त, 2024 हेड लीगल एवं कम्पनी सचिव जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

(CIN: L26922HR1980PLC010901) पंजी. कार्यालयं : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार—125005 (हरियाणा)

फोन: (01662) 222471-83 ई–मेल आईडी : investorcare@jindalstainless.com वेबसाइट : www.jindalstainless.com कार्पोरेट कार्यालय : जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

फोन: (011) 26188345-60, 41462000

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय पंजिल, साउव एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020



कब्जा नोटिस जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिपिटेड** का प्राधिकत अधिकारी होते हुए ''वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पनगंडन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (-12) और सहपठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मीग सचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दशांए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्त के 60 दिन के अंदर भूगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताधरकर्ता नै उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित नियम ९ के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्मतियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दशई गई दिनांक को प्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्ट्या तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दशोई वर्ड बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खावों के लिए आवास फाइनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्रभार के अध्यक्षीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कव्जे की तारीख एवं प्रकार	
जवाहर सिंह, गुड़ी देवी, राम निवास धाकरे खाता सं. LNAGR03320-210161826	06 जून 2024 र 643890/- बकाया दिनांक 04 जून 2024	खसरा नं. 434 और 437, स्थित मीजा उकर्रा, शमशाबाद रोड, आगरा 282001 क्षेत्रफल 83.6 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 14 अगस्त 2024	
स्थान : जयपुर दिनांक :	15-08-2024	प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइ	नेंसियर्स लिमिटेड	

विशेष रेलगाड़ियों की परिचालन अवधि में विस्तार

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाडियों की परिचालन अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी संख्या	से	तक	चलने के दिन	पूर्व अधिसूचित तिथि	विस्तारित अवधि
05734	कटिहार	अमृतसर	गुरुवार	15.08.2024	12.09.2024 तक
05733	अमृतसर	कटिहार	शनिवार	17.08.2024	14.09.2024 तक
02525	कामाख्या	आनन्द विहार टर्मिनल	शुक्रवार	09.08.2024	06.09.2024 तक
02526	आनन्द विहार टर्मिनल	कामाख्या	रविवार	11.08.2024	08.09.2024 तक
05671	गुवाहाटी	आनन्द विहार टर्मिनल	बुधवार	14.08.2024	21.08.2024 तक
05672	आनन्द विहार टर्मिनल	गुवाहाटी	शुक्रवार	16.08.2024	23.08.2024 तक
05919	न्यू तिनसुकिया	भगत की कोठी	सोमवार	12.08.2024	19.08.2024 तक
05920	भगत की कोठी	न्यू तिनसुकिया	शुक्रवार	16.08.2024	23.08.2024 तक

उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में आने वाले ठहरावों की समय-सारणी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देखे।

पर हमें फॉलो करें

139

रेलमदद वेबसाइट देखें: हेल्पलाइन नं. www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें



ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

MARKTESH TRADING LIMITED REGD. OFFICE: 612, DEVIKA TOWER, 6, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019

CIN: L51909DL2005PLC135119 E-mail: shriharshraizada@gmail.com, Tel/Fax: +91-11-26219944 STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024
(Rs. in Lakhs)

rue:	+	Standalone				
SI. No	Particulars	Current Quarter Ended 30.06,2024	Corresponding 3 month ended in the previous year 30.06.2023	Year to date figure Ended 31.03.2024		
		Audited	(Unaudited)	Audited		
	Total income from operations (net)	33.53	12.85	15.74		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.68	15.00	(4.78)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.68	15.00	(4.78)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.00	14.66	-3.31		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	14.66	(3.31)		
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	31.43	31.43	31.43		
7	Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Reserves)	148.18	148.18	148.18		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) (for continuing and					
	discontinued operations)					
	- Basic	0.00	1.71	1.05		
1	- Diluted	0.00	0.00	0.00		

The above is an extract of the detailed format of the Standalone results for the quarter ended on 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2024 are available on the Stock Exchange website www.msei.in and the company Website. For & on behalf of

Place: Delhi

Date: 14.08.2024

FEDDERS

HOLDING LTD

फेडर्स होल्डिंग लिभिटेड (पूर्व में आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

(सीआईएन: L74140UP1991PLC201030)

पंजीकृत कार्यालय: सी-15, आरखेसी, राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001

दूरभाष नंबर: 9810266747; ई-मेल: imcapitalscompliances@gmail.com वेबसाइट: https://imcapitals.com समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षात स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण 30 जून 2024 (रुपये लाखा में प्रति शेवर आये को बोइकर)

क.स.		रटैण्डएलीस			समेकित		
w.e.	विवरण	समाप्त तिमाही		वार्षिक समाप्ति	समाप्त तिमाही		वार्थिक समाप्ति
			31.03.2024 (लेखा परीक्षित)	31.03.2024 (लेखा परीदिात)	30.06.2024 (अनेका परीदेत)	31.03.2024 (लेखा परीदीत)	31.03.202 (तेखा परीक्षित
1.	प्रचालमों से कुल आय	128.83	133.63	756.85	14,707.92	14,971.91	57,165.44
2.	कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से जिवल लाभ/(हालि)	(23.07)	84.39	499.64	2,014.84	1,220.31	9,369.37
3.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (अपवादित तथा असाधारण मदों के पश्चात)	(23.07)	84.39	499.64	2,014.84	1,220.31	9,369.37
4.	अवधि हेतु कुल न्यापक आय कअवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य न्यापक आय (कर पश्चात) सहित,	(23.07)	84.39	499.64	1,991.00	1,234.60	9,393.37
5.	इक्विटी प्रदल शेयर पुँजी	1,107.80	916.20	916.20	1,107.80	916,20	916.20
6.	आव प्रति शेवर (वार्षिक मही):	1-					
	बेसिक : (१)	(0.21)	0.92	5.45	18.19	13.35	102.26
	डाइल्य्टेड : (र)	(0.21)	0.92	5.45	18.19	13.35	102.26

उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिश की गई और निदेशक मंदल द्वारा 14 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में

अनमोदित किया गया। कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा 30 जन 2024 को समाप्त तिमाही के लिए विलीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है। उपरोक्त सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर अलेकापरीकित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोज और समेकित वितीय परिणामों का पर्ण प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सबेंज वेबसाइट. www.bseindia.com और कंपनी की बेबरगाइट www.imcapitals.com बोर्ड के आदेशानुसार कते फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड

स्थान : गाजियाबाढ (उ.प्र.) तिथि : 14.08.2024

विशाल सिंधल (निवेशक) डिन: 03518795

MARKTESH TRADING LIMITED

ABHISHEK BAJORIA

Director

DIN: 00025977



बाम्पसल सिक्युरिटीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय— 100—ए, साइकिल बाजार, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 वेबसाइटः www.bampslsecurities.co.in ईमेल आईडीः bampslsecurities@yahoo.co.in टेलीफोन नंबरः -011-47523613, सीआईएन.-L65100DL1995PLC065028

30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाामों का सार राशि (लाख में)

क्र.			समाप्त वार्षिक		
क्र. स.	विवरण	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	कुल आय	675.29	98.64	423.09	902.24
2.	शुद्ध लाम/(हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	7.23	42.12	(7.39)	49.05
3.	शुद्ध लाम/(हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	7.23	42.12	(7.39)	49.05
4.	शुद्ध लाम / (हानि) कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाघारण सामग्री से पश्चात्)	2.81	32.70	(5.84)	39.43
5.	अविध हेतु कुल योग गहन आय तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	2.81	32.70	(5.84)	39.43
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52
7.	प्रतिशेयर आय (रुपये 10 / – प्रत्येक)				
	मूलभूत	0.008	0.096	(0.017)	0.116
	द्रव	0.008	0.096	(0.017)	0.116
नो	с _				N)

- 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.bampslsecurities.co.in पर भी उपल्ब्ध है।
- 2. उपरोक्त वित्तीय परिणाम की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और बाद में 14 अगस्त, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 3. अनंकेक्षित परिणाम लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन हैं।
- 4. पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित और / या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिनांकः 14.08.2024 स्थानः नई दिल्ली

भीष्म कुमार गुप्ता प्रबंध संचालक (डीआईएन: 00110915)

बोर्ड की ओर से

हस्ता. / —

आवास फाडनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्याः: 201-202, द्वितीय पंजिल, साउध एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपूर-302020



कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आबास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''विलीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गंडन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मोग सचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गया। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताधरकर्ता नै उक्त एक्ट की धारा 13(-4-) सहपटित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दशई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राश तथा देन पर क्याज व खर्चों के लिए आबास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
रीना रीना, नितू कुमार खाता सं. LNRRK17523-240295953 व LNRRK17623-240299840	6 जून 2024 ₹ 1426724/- ₹ 448087/- बकाया दिनांक 4 जून 2024	मोहल्ला कृष्णानगर गली नं. 20 मोजा गांव सलेमपुर राजपूतान (वर्तमान में नगर निगम रूडकी की सीमा के भीतर) परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला-हरिद्वार, (यूके) क्षेत्रफल 718.20 वर्ग फीट	सांकेतिक कब्जा दिनांक 12 अगस्त 2024



PLAZA WIRES LIMITED

CIN: U31300DL2006PLC152344 Regd. Office: A-74, Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110020; Email Id; compliance@plazawires.in , Tel No: 011-66369696; Website; www.plazawires.in

	Extract of the Financial Results	Quarter Ended		Year Ended
	in Rs. Millions	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024 (Audited)
		(Un-audited)	(Un-audited)	
1.	Total Income/Revenue from operations	476.04	482,93	1999.06
2.	Net profit for the period before tax and exceptional items	9.75	13.62	52.22
3.	Net profit for the period before tax and after exceptional items	9.75	13.62	52.22
4.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	6.86	10.02	36.77
5.	Total comprehensive income for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	6.86	10.02	36.51
6.	Paid up Equity share capital	437.52	305.52	437.52
7.	Reserves, excluding Revaluation Reserves (as shown in the preceding/completed year end balance sheet)			757.65
8.	Earnigs per share in Rs. (Per share of Rs. 10 each, Basic and diluted)	0.16	0.33	(4)

- The above is an extract of the detailed format of Quartely Financial Results for the 01st quarter of the Financial Year 2024-25 with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of Quartely Financial Results are available on the website of the company www.plazawires.in/www.plazacables.com and National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com)
- b) The above financials have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13" August, 2024

For Plaza Wires Limited

Place: Delhi Date: August, 13 2024

Sanjay Gupta DIN:00202273 Chairman and Managing Director



Regd. Office: A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area. New Delhi-110052

Phone: 011-27373622, E-mail: srusteels@yahoo.in, Website: www.srusteels.in Extract of Unaudited Standalone Financial Results

for the Quarter Ended June 30, 2024

(₹ In Lacs) Quarter Ended Year Ended 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.03.2024 31.03.2024 **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) Refer Note 4 103.95 Total Income from Operation (Net) 11.72 915.90 1,831,65 Net Profit / (Loss) for the period (46.05)9.21 14.46 43.72 (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (46.05)9.21 14:46 43.72 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (46.03)6.81 10.69 32.35 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 10.69 32.35 and other Comprehensive Income (after tax)} (46.03)6.81 1,198.79 1,198.79 1,198.79 1,198.79 Equity Share Capital Reserves (excluding revaluation reserve as shown 162.74 in the balance sheet of previous year) (as on 31.03.2024) 8 | Earning Per Equity Share (Face Value ₹ 10/- each) Basic 0.06 0.09 0.27 (0.38)

Diluted

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as modified by Circular No. CIR/CFD/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Company at www.srusteels.in and on the website of the Stock Exchange viz, www.bseindia.com.

(0.38)

0.06

0.09

Mayank Bhandari

(Managing Director)


0.27

2. The detail Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their respective meeting held on 13th August, 2024. 3. The above Unaudited Financial Results is Subject to Limited Review Report as furnished by the Statutory Auditor

and approved by the Board of Directors of the Company as required under Regulation 33 of SEBI (Listing

- Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 4. The Figures for the Quarter ended March 31, 2024, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full Financial Year ended March 31, 2024, and the unaudited published year-to-date figures up to nine months of the relevant financial year which were subject to limited review by the statutory auditors.
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules. 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

6. The figures for the previous year / quarter have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period's classification. For SRU Steels Limited



Place: New Delhi Date: 13.08.2024

> महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) निगम एवं पंजी. कोर्यालयः महानगर दूरसंचार सदन, 5वाँ तल, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, सीआईएनः L32101DL1986GOI023501

वेबसाइटः www.mtnl.net.in, फोन (कार्या.): 011-24319020, फैक्स: 011-24324243 30.06.2024 को समाप्त हुई तिमाही के एकल एवं समेकित

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. करोड में समेकित सम्बन्ध विमाही समाप्त तिबाही समाप्त वर्ष समान्त वर्ष 30.06.2024 30.06.2023 4 31.03.2024 30.06.2023 币 31.03.2024 30 06 2024 विवरण समाप्त पिछले वर्ष की को समान्त समाप्त विछले वर्ष को समाप्त को समाप्त को समाप्त की तदनसार तिमाही पिछला वर्ष विशाही तदनसार तियाही पिछला वर्ष अनंकेक्षित अनंकेदित अंके दिवत अनंकेशित अंके क्षित अनंकेद्रित 183.85 169,40 184.57 728.47 199.48 798.56 प्रवालनों से कुल आय अपवादात्मक मदौ एवं कर से पूर्व अवधि हेत् (771.82) (850.15) (3,302.19)(773,46) (851.93) (3,267.71)शुद्ध लाग/(हानि) कर से पूर्व की अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि) (773.46)(3,267.71)(771.82)(850:15) (3,302.19)(851.93) (अपवादात्मक मदों के पश्चात) (771.82)(850.15) (3,302.19)(773.46)(851.93) (3,267.52)कर के पश्चात अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि) अवधि हेत् कुल व्यापक आय (कर के पश्चात शुद्ध लाभ) (775.63)(779.55)(851.27) (3,317.42) (3,286.68)(856.78) (हानि) और कर के पश्चात अन्य व्यापक आय सहित) प्रदत्त इविवटी शेवर पूँजी 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 पूनर्मृत्याकन आरक्षितों को छोड़कर अन्य इविवटी (22,314.64) 25,035,96) (24,274.10) (25,050.74)(24,292.80) (22,332.20)सिक्योरिटी प्रीमिपम लेखा 665.00 665.00 665.00 665.00 665:00 665.00 (24,420.74)(21,684.64) (23,662.80) 24,405.96) (21,702.20) (23,644.10) निवल मृत्य 23,512.31 25,794.96 25,544.83 23,512.31 25,794.96 10 चुकता ऋष पूजी/बकाया ऋष 25,544.83 ।। बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर (1.26)(1.33)(1.27)(1.26)(1.33)(1.27)12 ऋण इविवटी अनुपात (इन टाइम्स) 13 प्रति शेयर आय (रु. 10 प्रत्येक) चालु एवं बंद हो चुके प्रचालनों हेत्- उपार्जन (वार्षिकीकृत नहीं) (रु. में) (12.25)(13.49) $\{12.28\}$ (13.52)(51.87)(52.42)(52.42)(12.25)(13.49)(12.28)(13.52)(51.87)2. तनुकतः 14 पूजी प्रतिदान आरक्षित 15 ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षित 16 ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) (इन टाइम्स) 0.09 (0.06)0.01 0.09 (0.06)0.01

17 ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) (इन टाइम्स) 0.12 (0.06)0.02 0.13 (0.06)नोट: १. उपरोक्त विवरण सेबी (सुवीकरण एवं अन्य उदघोषणा आवश्यकताएँ) नियमन, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के तहत स्टॉक एक्सबेंजों में दर्ज विस्तृत तिमाही परिणामों का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.mtnl.net.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com

एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 2. लेखा परीक्षा समिति ने 14.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की है और कम्पनी के निदेशक मंडल ने इसी तिथि को आयोजित

अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया है।

3. सेबी (सूचीकरण एवं अन्य उदयोषणा आवश्यकताएं) नियमन 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मदों के लिए बीएसई एवं एनएसई को उचित उदयोषणा कर दी गई है तथा जो स्टीक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखी जा सकती है। ६. कम्पनी ने यह वित्तीय परिणाम कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित कम्पनीज (इंडियन एकाउटिंग स्टैन्डर्स) नियम, 2015 के अनुरूप तैयार

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14.08.2024



कते तथा बोर्ड की ओर से

(ए. सॉबर्ट जे. रवि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक

ढीआईएनः 10095013

www.readwhere.com